

Lev

Chapter 11

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה וְאֶל-הָאֱלֹהִים: 1
और-बोला और-को मूसा की यहोवा और-बोला
H1696 H3068 H0413 H4872 H0413 H0175 H0559 H0413

यहोवा ने मूसा और हारून से कहा,

וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר זֹאת חַיַּת הַחַיָּה אֲשֶׁר תֹּאכְלוּ מִכֹּל-הַבְּהֵמָה 2
और-बोला और-को इस्राएल के पुत्रों को बोलो
H1696 H0413 H3478 H0559 H2063 H0398 H3605 H0929
אֲשֶׁר-עַל-הָאָרֶץ: —
पर पृथ्वी
H0776

“इस्राएल के लोगों से कहो: ये जानवर हैं जिन्हें तुम खा सकते हो:

וְכֹל מִמִּפְרֹת הַבְּרֶטֶת וְכֹל מִפְרֹת הַבְּרֶטֶת 3
सब फटे खुर वाला खुर और-दो भागों में फटा हुआ फटा खुर
H3605 H6536 H6541 H8156 H5927 H1625 H0929 H0929
וְכֹל תֹּאכְלוּ: —
तुम खाओगे
H0853 H0398

यदि जानवर के खुर दो भागों में बँटे हों और वह जानवर जुगाली भी करता हो तो तुम उस जानवर का माँस खा सकते हो।

אֲךָ אֵת-זֶה לֹא תֹאכְלוּ מִמַּעֲלֵי הַגֵּרָה וּמִמִּפְרֹת הַבְּרֶטֶת אֲתָ-הַנְּמֹל 4
परन्तु इससे नहीं तुम खाओगे तुम खाओगे से-उगलने वालों से-उगलने वालों और-से और-खुर नहीं फटे खुर वालों खुर
H0389 H0853 H2088 H3808 H0398 H5927 H1625 H6536 H6541 H0853 H1581
כִּי-מִעֲלֵי הַגֵּרָה הוּא וּפְרֹתָהּ אֵינָנוּ מִפְרֹתָהּ אֵינָנוּ מִפְרֹתָהּ הוּא 5
क्योंकि उगलने वाला जुगाली वह और-खुर नहीं फटा हुआ वह अशुद्ध तुम्हारे लिए
H5927 H1625 H1931 H6541 H0369 H6536 H2931 H1931

“कुछ जानवर जुगाली करते हैं, किन्तु उनके खुर फटे नहीं होते। तो ऐसे जानवरों को मत खाओ—ऊँट, शापान और खरगोश वैसे हैं, इसलिए वे तुम्हारे लिए अपवित्र हैं।

וְאֵת-הַשֶּׁפָּן הַחֲדָשִׁי כִּי-מִעֲלֵי הַגֵּרָה הוּא 5
और-को चट्टानी बिज्जू क्योंकि उगलने वाला जुगाली वह
H0853 H5927 H1625 H1931 H6541 H6536 H2931 H1931
לְכֹסֶם: —
तुम्हारे लिए

“कुछ जानवर जुगाली करते हैं, किन्तु उनके खुर फटे नहीं होते। तो ऐसे जानवरों को मत खाओ—ऊँट, शापान और खरगोश वैसे हैं, इसलिए वे तुम्हारे लिए अपवित्र हैं।

וְאֵת־	הָאֲרָנֹת	כִּי־	מַעֲלֵת	גִּרְהַ	הוּא	וּפְרָסָה	לֹא	הַפְּרִיסָה	טְמֵאָה	הוּא	6
और-को	खरगोश	क्योंकि	उगलने वाला	जुगाली	वह	और-खुर	नहीं	फटा	अशुद्ध	वह	
H0853	H0768		H5927	H1625	H1931	H6541	H3808	H6536	H2931	H1931	

לְכֶם:
तुम्हारे लिए

“कुछ जानवर जुगाली करते हैं, किन्तु उनके खुर फटे नहीं होते। तो ऐसे जानवरों को मत खाओ—ऊँट, शापान और खरगोश वैसे हैं, इसलिए वे तुम्हारे लिए अपवित्र हैं।

וְאֵת־	הַחֲזִיר	כִּי־	מִפְּרִיס	פְּרָסָה	הוּא	וְשֵׁעַ	שֵׁעַ	פְּרָסָה	וְהוּא	7
और-को	सूअर	क्योंकि	फटे खुर वाला	खुर	वह	और-दो भागों में फटा हुआ	खुर	और-वह	नहीं	
H0853	H2386		H6536	H6541	H1931	H8156	H8157	H6541	H1931	

גִּרְהַ לֹא יִגָּר טְמֵאָה הוּא לְכֶם:
— तुम्हारे लिए वह अशुद्ध जुगाली उगलता
[H1625](#) [H3808](#) [H1641](#) [H2931](#) [H1931](#)

अन्य जानवर दो भागों में बँटी खुरों वाले हैं, किन्तु वे जुगाली नहीं करते। उन जानवरों को मत खाओ। सूअर बैसे ही हैं, अतः वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं।

מִבְּשָׂרָם	לֹא	תֹאכְלוּ	וּבְנֹבְלָתָם	לֹא	תִּנְעֻוּ	טְמֵאִים	הֵם	לְכֶם:	8
से-उनके मांस	नहीं	तुम खाओगे	और-में	उनकी लोथ	नहीं	तुम छुओगे	अशुद्ध	वे	
H1320	H3808	H0398	H5038	H3808	H5060	H2931	H1992		

उन जानवरों का माँस मत खाओ! उनके शव को छूना भी मत वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं!

אֶת־	זֶה	תֹּאכְלוּ	מִכֹּל	אֲשֶׁר	בְּמַיִם	כֹּל	אֲשֶׁר־	לוֹ	סִנְפִיר	וּקְשָׁשִׁת	בְּמַיִם	9
इसे	तुम खाओगे	से-सब	जो	में-जल	सब	जिसके	पंख	और-शल्क	में-जल	में-समुद्रों	और-में	
H0853	H2088	H0398	H3605	H5579	H4325	H3605	H4325	H5792	H5579	H7193	H4325	

בְּמַיִם וּבְנֹחָלִים אֲתָם תֹּאכְלוּ:
— तुम खाओगे उन्हें नदियों
[H3220](#) [H0853](#) [H0398](#)

“यदि कोई जानवर समुद्र या नदी में रहता है और उसके पंख और परतें हैं तो तुम उस जानवर को खा सकते हो।

וְכֹל־	אֲשֶׁר	אֵין־	לוֹ	סִנְפִיר	וּקְשָׁשִׁת	בְּמַיִם	וּבְנֹחָלִים	מִכֹּל־	שָׂרָץ	הַמַּיִם	10
और-सब	जिसके	नहीं	पंख	और-शल्क	में-समुद्रों	और-में	नदियों	से-सब	रेंगने वाले	जल	
H3605	H0369	H0369	H3605	H5579	H7193	H3220	H3605	H3605	H8318	H4325	

וּמִכֹּל גִּפְשׁ הַחַיָּה אֲשֶׁר בְּמַיִם יִשְׁקֶן הֵם לְכֶם:
और-से-सब प्राणी जीवित जो में-जल घिनीने वे तुम्हारे लिए
[H3605](#) [H5315](#) [H4325](#) [H8263](#) [H1992](#)

किन्तु यदि जानवर समुद्र या नदी में रहता है और उसके पंख और परतें नहीं होतीं तो उस जानवर को तुम्हें नहीं खाना चाहिए। वह गन्दे जानवरों में से एक है। उस जानवर का माँस मत खाओ। उसके शव को छूना भी मत!

וְשָׂקָן	יְהִיוּ	לְכֶם	מִבְּשָׂרָם	לֹא	תֹאכְלוּ	וְאֵת־	נֹבְלָתָם	תִּשְׂקְצוּ:	11
और-घिनीने	वे होंगे	तुम्हारे लिए	से-उनके मांस	नहीं	तुम खाओगे	और-को	उनकी लोथ	तुम घृणित करोगे	
H8263	H1961	H3605	H1320	H3808	H0398	H0853	H5038	H8262	

किन्तु यदि जानवर समुद्र या नदी में रहता है और उसके पंख और परतें नहीं होतीं तो उस जानवर को तुम्हें नहीं खाना चाहिए। वह गन्दे जानवरों में से एक है। उस जानवर का माँस मत खाओ। उसके शव को छूना भी मत!

כֹּל	אֲשֶׁר	אֵין־	לוֹ	סִנְפִיר	וּקְשָׁשִׁת	בְּמַיִם	שָׂקָן	הוּא	לְכֶם:	12
सब	जिसके	नहीं	उसके	पंख	और-शल्क	में-जल	घिनीना	वह	तुम्हारे लिए	
H3605	H0369	H0369	H3605	H5579	H7193	H4325	H8263	H1931		

तुम्हें पानी के हर एक जानवर को, जिसके पंख और परतें नहीं होतीं, उसे घिनीने जानवरों में समझना चाहिए।

22 אֶת־ אֵלָהּ מִהֶם תֹּאכְלוּ אֶת־ הָאֲרֵבָה לְמִינֹו וְאֶת־ הַסֹּלֶעַם
 अपने जाति के अनुसार सोलाम टिड्डी और-को अपनी जाति के अनुसार टिड्डी को तुम खाओगे से-उनमें इन्हें
 H5556 H0853 H4327 H0697 H0853 H0398 H1992 H0428 H0853

לְמִינֵיהֶוּ וְאֶת־ הַחֲרָזִל לְמִינֵיהֶוּ וְאֶת־ הַחֲרָזִל לְמִינֵיהֶוּ
 और-को हरगोल टिड्डी अपनी जाति के अनुसार हगाब टिड्डी और-को अपनी जाति के अनुसार
 H4327 H2284 H0853 H4327 H2728 H0853 H4327

ये पतंगे हैं जिनमें तुम खा सकते हो: हर प्रकार की टिड्डियाँ, हर प्रकार की सपंख टिड्डियाँ, हर प्रकार के झींगुर हर प्रकार के टिड्डे।

23 וְכֹל־ שָׂרִיץ הָעוֹף אֲשֶׁר־ לוֹ אַרְבַּע רַגְלָיִם שֶׁקֶץ הוּא לָכֵם:
 और-सब रेंगने वाला उड़ने वाला जिसके उसके चार पैर घिनौना तुम्हारे लिए
 H1931 H8263 H7272 H0702 H5775 H8318 H3605

“किन्तु अन्य सभी वे कीट पतंगे जनके पंख हैं और जो रेंग भी सकते हैं, तुम्हारे लिए घिनौने प्राणी हैं।

24 וְלֹא־אֵלָהּ הַטְּמֵאוֹ כֹּל־ הַנֶּנֶע בְּגִבְלֹתָם עַד־ הָעֶרֶב:
 और-इनसे तुम अशुद्ध हो जाओगे सब छूने वाला में उनकी लोथ अशुद्ध होगा तक
 H6153 H5704 H5038 H5060 H3605 H0428

वे कीट पतंगे तुमको असुद्ध करेंगे। कोई व्यक्ति जो मरे कीट पतंगे को छूएगा, सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा।

25 וְכֹל־ הַנֶּשֶׂא הַנִּשְׂא מִגְּבֻלְתָּם יִכָּבֵס בְּגִדָיו וְטִמָּא עַד־ הָעֶרֶב:
 और-सब उठाने वाला से उनकी लोथ धोएगा अपने वस्त्र और-अशुद्ध होगा तक
 H6153 H5704 H3526 H5038 H5375 H3605

यदि कोई मरे कीट पतंगों में से किसी को उठाता है तो उस व्यक्ति को अपने कपड़े धो लेने चाहिए। वह व्यक्ति सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा।

26 לְכָל־ הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר הוּא מִפְּרוֹסֹת פְּרוֹחַ חֹרֵב וְאֵינָהּ שֹׁטֶט וְגִרָה
 हर पशु जो वह फटे खुर वाला खुर और-दो भागों में फटा हुआ और-जुगाली फटा नहीं
 H1625 H8157 H0369 H8156 H6541 H6536 H1931 H0929 H3605

אֵינָהּ מֵעֹלָה טְמֵאִים הֵם לָכֵם כֹּל־ הַנֶּנֶע בָּהֶם יִטְמָא:
 नहीं उगलने वाला अशुद्ध वे तुम्हारे लिए सब छूने वाला उनमें अशुद्ध होगा
 H5060 H3605 H1992 H2931 H5927 H0369

“कुछ जानवरों के घुर फटे होते हैं किन्तु खुर के ठीक ठीक दो भाग नहीं होते। कुछ जानवर जुगाली नहीं करते। कुछ जानवरों के घुर नहीं होते, वे अपने पंजों पर चलते हैं ऐसे सभी जानवर तुम्हारे लिए घनौने हैं। कोई व्यक्ति, जो उन्हें छूयेगा अशुद्ध हो जाएगा। वह व्यक्ति सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा।

27 וְכֹל־ הַחַיָּה עַל־ כַּפְּיוֹ בְּכָל־ הַחַיָּה הַחֹלֶכֶת עַל־ אַרְבַּע טְמֵאִים הֵם
 और-सब चलने वाला अपने पंजों पर में-सब चलने वाला चार अशुद्ध वे
 H1992 H2931 H0702 H1980 H3605 H3709 H1980 H3605

לָכֵם כֹּל־ הַנֶּנֶע בְּגִבְלֹתָם עַד־ הָעֶרֶב:
 तुम्हारे लिए सब छूने वाला में उनकी लोथ अशुद्ध होगा तक
 H6153 H5704 H5038 H5060 H3605

“कुछ जानवरों के घुर फटे होते हैं किन्तु खुर के ठीक ठीक दो भाग नहीं होते। कुछ जानवर जुगाली नहीं करते। कुछ जानवरों के घुर नहीं होते, वे अपने पंजों पर चलते हैं ऐसे सभी जानवर तुम्हारे लिए घनौने हैं। कोई व्यक्ति, जो उन्हें छूयेगा अशुद्ध हो जाएगा। वह व्यक्ति सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा।

28 וְהַנֶּשֶׂא אֶת־ נִבְלָתָם יִכָּבֵס בְּגִדָיו וְטִמָּא עַד־ הָעֶרֶב טְמֵאִים הֵם
 और-उठाने वाला को उनकी लोथ धोएगा अपने वस्त्र और-अशुद्ध होगा तक शाम अशुद्ध वे
 H1992 H2931 H6153 H5704 H3526 H5038 H0853 H5375

לָכֵם:
 तुम्हारे लिए

यदि कोई व्यक्ति उनके मरे शरीर को उठाता है तो उस व्यक्ति को अपने वस्त्र धोने चाहिए। वह व्यक्ति सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा। वे जानवर तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं।

וְהַצִּבּוּ	וְהַעֲבֹדוּ	הַחֲלֹד	הָאָרֶץ	עַל-	הַשָּׂרֵן	בְּשָׂרֵן	הַטָּמֵא	לְכֶם	וְזָה	29
और-बड़ी छिपकली	और-चूहा	छछूंदर	पृथ्वी	पर	रेंगने वाला	में-रेंगने वाले	अशुद्ध	तुम्हारे लिए	और-यह	
	H5909	H2467	H0776		H8317	H8318	H2931		H2088	

לְמִינָהּ:
अपनी जाति के अनुसार
[H4327](#)

“ये रेंगने वाले जानवर तुम्हारे लिए घिनौने हैं: छछून्दर, चूहा, सभी प्रकार के बड़े गिरगिट,

וְהַתְּשִׁמָּת:	וְהַחֲמָט	וְהַלְטָאָה	וְהַחֲמָט	וְהַאֲנָקָה	30
और-गिरगिट	और-रेत छिपकली	और-छिपकली	और-भूमि मगरमच्छ	और-गेको	
H8580	H2546	H3911		H0604	

छिपकली, मगरमच्छ, गिरगिट, रेगिस्तानी गोहेर, और रंग बदलता गिरगिट।

עַד-	יִטְמָא	בְּמָתָם	בָּהֶם	הַנִּנְעֵ	כָּל-	הַשָּׂרֵן	בְּכָל-	לְכֶם	הַטָּמֵאִים	אֵלֶּה	31
तक	अशुद्ध होगा	में-उनके मरने	उन्हें	छूने वाला	सब	रेंगने वाला	में-सब	तुम्हारे लिए	अशुद्ध	ये	
H5704		H4194		H5060	H3605	H8318	H3605		H2931	H0428	

הָעֶרֶב:
शाम
[H6153](#)

ये रेंगने वाले जानवर तुम्हारे लिये घिनौने हैं। कोई व्यक्ति जो उन मरे हुएों को छूएगा सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा।

בְּגָד	אוּ	עֵץ	כְּלִי-	מִכָּל-	יִטְמָא	בְּמָתָם	וּמִהֶם	עָלָיו	יִפֹּל-	אֲשֶׁר-	וְכָל	32
वस्त्र	या	लकड़ी	बर्तन	से-हर	अशुद्ध होगा	में-उनके मरने	से-उनमें	पर-वह	गिरेगा	जो	और-सब	
		H6086	H3627	H3605		H4194	H1992		H5307		H3605	

יִבָּא	בְּמַיִם	בָּהֶם	מִלְאָכָה	יַעֲשֶׂה	אֲשֶׁר-	כְּלִי	כָּל-	שֶׁק	אוּ	עוֹר	אוֹ-	
डाला जाएगा	में-जल	उसमें	काम	किया जाता है	जो	बर्तन	हर	बोरा	या	चमड़ा	या	
H0935	H4325		H4399			H3627	H3605	H8242		H5785		

וְטָהַר:
और-शुद्ध होगा
[H2891](#)

הָעֶרֶב
शाम
[H6153](#)

עַד-
तक
[H5704](#)

וְיִטְמָא
और-अशुद्ध होगा

“यदि किसी घिनौने जानवरों में से कोई मरा हुआ जानवर किसी चीज़ पर गिरे तो वह चीज़ अशुद्ध हो जाएगी। यह लकड़ी, चमड़ा, कपड़ा, शोक वस्त्र या कोई भी औजार हो सकता है। जो कुछ भी वह हो उसे पानी से धोना चाहिए। यह सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा। तब यह फिर शुद्ध हो जाएगा।

בְּתוֹכוֹ	אֲשֶׁר	כָּל	תּוֹכוֹ	אֶל-	מֵהֶם	יִפֹּל	אֲשֶׁר-	חֲרָשׁ	כְּלִי-	וְכָל-	33
अशुद्ध होगा	में-उसके बीच	जो	सब	में-उसके बीच	से-उनमें	गिरेगा	जो	मिट्टी	बर्तन	और-हर	
H8432			H3605	H8432	H0413	H1992	H5307	H2789	H3627	H3605	

וְיִטְמָא
और-उसे

וְאָתוֹ
तुम तोड़ोगे
[H0853](#)

תְּשַׁבְּרוּ:
—
[H7665](#)

यदि उन गन्दे जानवरों में से कोई मरा हुआ मिट्टी के कटोरे में गिरे तो कटोरे की कोई भी चीज़ अशुद्ध हो जाएगी। तुम्हें कटोरा अवश्य तोड़ देना चाहिए।

אֲשֶׁר	מִשְׁקָה	וְכָל-	יִטְמָא	מַיִם	עָלָיו	יָבֹא	אֲשֶׁר	יֵאָכֵל	אֲשֶׁר	הָאֵכָל	מִכָּל-	34
जो	पेय	और-हर	अशुद्ध होगा	जल	पर-वह	आएगा	जो	खाया जाएगा	जो	भोजन	से-सब	
		H3605			H4325	H0935		H0398		H0400	H3605	

וְיִטְמָא:
अशुद्ध होगा

כְּלִי
बर्तन
[H3627](#)

בְּכָל-
में-हर
[H3605](#)

וְשָׂתָה
पिया जाएगा
[H8354](#)

यदि अशुद्ध मिट्टी के कटोरे का पानी किसी भोजन पर पड़े तो भोजन अशुद्ध हो जाएगा। अपवित्र कटोरे में कोई भी दाखमधु अशुद्ध हो जाएगा।

הם	טמאים	יתן	וכירים	תגור	יטמא	עליו	ומגבלתם	יפל	אשר-	וכל	35
अशुद्ध	तोड़ा जाएगा	और-चूल्हा	तंदूर	अशुद्ध होगा	पर-वह	उनकी लोथ	से	गिरिगा	जो	और-सब	
H1992	H2931	H5422	H3600	H8574			H5038	H5307		H3605	

וּטְמָאִים יְהוּי לָכֶם:
 वे होंगे और-अशुद्ध वे
 [H1961](#) [H2931](#)

यदि किसी मरे हुए घिनौने जानवर का कोई भाग किसी चीज़ पर आ पड़े तो वह चीज शुद्ध नहीं रहेगी। इसे टुकड़े—टुकड़े कर देने चाहिए। चाहे वह चूल्हा हो चाहे कड़ाही। वे तुम्हारे लिए सदा अशुद्ध रहेगी।

אָר	מַעַיִן	וּבֹר	מְקוּה-	מַיִם	יְהוּי	טָהוֹר	וְנָגַע	בְּגִבְלָתָם	יְטַמָּא:	36
परन्तु	सोता	और-कुंड	संग्रह	जल	होगा	शुद्ध	और-छूने वाला	में	उनकी लोथ	
	H4599	H0389		H4325	H1961	H2889	H5060	H5038		

“कोई सोता या कुआँ जिसमें पानी रहता है, शुद्ध बना रहेगा किन्तु कोई व्यक्ति जो किसी मरे घिनौने जानवर को छूयेगा, अशुद्ध हो जाएगा

וְכִי	יִפֹּל	מִגְבֻלָּתָם	עַל-	כָּל-	זָרַע	זָרַע	אֲשֶׁר	יִזְרַע	טָהוֹר	הוא:	37
और-यदि	गिरिगा	से	उनकी लोथ	पर	कोई	बीज	बोने का	जो	बोया जाएगा	शुद्ध	
	H5307	H5038		H3605	H2233	H2221	H2232	H2889	H1931		

यदि उन घिनौने मरे जानवरों का कोई भाग बोए जाने वाले बीज पर आ पड़े तो भी वह शुद्ध ही रहेगा।

וְכִי	יִתֵּן	מַיִם	עַל-	זָרַע	וְנָפַל	מִגְבֻלָּתָם	עָלָיו	טָמֵא	הוא	לָכֶם:	38
और-यदि	डाला जाएगा	जल	पर	बीज	और-गिरिगा	से	उनकी लोथ	पर-वह	अशुद्ध	वह	
	H5414	H4325		H2233	H5307	H5038		H2931	H1931		

ו
तुम्हारे लिए

किन्तु भिगोने के लिए यदि तुम कुछ बीजों पर पानी डालते हो और तब यदि मरे घिनौने जानवर का कोई भाग उन बीजों पर आ पड़े तो वे बीज तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं।

וְכִי	יָמוּת	מִן-	הַבְּהֵמָה	אֲשֶׁר-	היא	לָכֶם	לְאֹכְלָהּ	הַנֶּגַע	בְּגִבְלָתָהּ	39
और-यदि	मरेगा	से	पशु	जो	वह	तुम्हारे लिए	भोजन के लिए	छूने वाला	में	
	H4191		H0929		H1931		H0402	H5060	H5038	

יְטַמָּא
 उसकी लोथ
 עַד-
 अशुद्ध होगा
 הָעֶרְב:
 तक
 [H6153](#) [H5704](#)

“और भी, यदि भोजन के लिए उपयुक्त कोई जानवर अपने आप मर जाए तो जो व्यक्ति उके मरे शरीर को छूयेगा, सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा

וְהָאֹכֵל	מִגְבֻלָּתָהּ	יִכָּבֵס	בְּגָדָיו	וְטָמֵא	עַד-	הָעֶרְב	וְהַנֶּשֶׂא	אֶת-	40
और-खाने वाला	से	उसकी लोथ	धोएगा	अपने वस्त्र	और-अशुद्ध होगा	तक	शाम	और-उठाने वाला	
	H0398	H5038	H3526		H5704	H6153	H5375	H0853	

גִּבְלָתָהּ
 को
 יִכָּבֵס
 उसकी लोथ
 בְּגָדָיו
 धोएगा
 וְטָמֵא
 अपने वस्त्र
 עַד-
 और-अशुद्ध होगा
 הָעֶרְב:
 तक
 [H6153](#) [H5704](#) [H3526](#) [H5038](#)

और उस व्यक्ति को अपने वस्त्र धोने चाहिए। जो उस मृत जानवर के शरीर का माँ खाए। वह व्यक्ति सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा। जो व्यक्ति मरे जानवर के शरीर को उठाएगा उसे भी अपने वस्त्रों को धोना चाहिए। यह व्यक्ति सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा।

וְכָל-	הַשָּׂרִיץ	הַשָּׂרִיץ	עַל-	הָאָרֶץ	שָׂקָן	הוא	לֹא	יֵאָכֵל:	41
और-सब	रेंगने वाला	रेंगने वाला	पर	पृथ्वी	घिनौना	वह	नहीं	वह खाया जाएगा	
	H8318	H8317		H0776	H8263	H1931	H3808	H0398	

“हर एक ऐसा जानवर जो धरती पर रेंगता है, वो उन जानवरों में से एक है, जिसे यहोवा ने खाने को मना किया है।

42 כָּל הַחַיָּוִי עַל-גֶּחֱזֵי וְכָל הַחַיָּוִי עַל-אֲרְבַּע עַד כָּל-מַרְבָּה רִגְלָיִם
 सब चलने वाला और-सब पेट पर चलने वाला पर पर चार तक सब बहुत पैर वाला
[H3605](#) [H1980](#) [H3605](#) [H1512](#) [H1980](#) [H3605](#)

לְכָל-הַשָּׂרֵץ רֹגֵץ הַשָּׂרֵץ עַל-הָאָרֶץ לֹא תֹאכְלוּם כִּי-שִׂקָן הֵם:
 हर रेंगने वाला रेंगने वाला पर पृथ्वी नहीं खाओगे क्योंकि घिनौने वे
[H8318](#) [H8317](#) [H0776](#) [H3808](#) [H0398](#) [H8263](#) [H1992](#)

तुम्हें ऐसे किसी भी रेंगने वाले जानवर को नहीं खाना चाहिए जो पेट के बल रेंगता है जै चारों पैरों पर चलता है, या जिसके बहुत से पैर हैं। ये तुम्हारे लिए घिनौने जानवर हैं!

43 אֵל-הַשִּׂקָנוּ אֶת-נַפְשֹׁתֵיכֶם בְּכָל-הַשָּׂרֵץ וְלֹא תִשְׂמְאוּ בָהֶם
 मत घिनौना करो को अपने प्राणों में-सब रेंगने वाला रेंगने वाला और-नहीं तुम अशुद्ध हो जाओ उनसे
[H0408](#) [H8262](#) [H0853](#) [H5315](#) [H3605](#) [H8318](#) [H8317](#) [H3808](#)

וְנִטְמְתֶם בָּם:
 और-तुम अशुद्ध हो जाओगे उनमें

उन घिनौने जानवरों से अपने को अशुद्ध मत बनाओ। तुम्हें उनके साथ अपने को अशुद्ध नहीं बनाना चाहिए!

44 כִּי אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם וְהִתְקַדַּשְׁתֶּם וְהָיִיתֶם קְדוֹשִׁים כִּי קָדוֹשׁ
 क्योंकि मैं हूँ यहीवा तुम्हारा परमेश्वर और-तुम पवित्र करो और-तुम पवित्र होओ और-तुम पवित्र होओ मैं पवित्र
[H0589](#) [H3068](#) [H0430](#) [H6942](#) [H1961](#) [H6918](#) [H6918](#)

אֲנִי וְלֹא תִשְׂמְאוּ אֶת-נַפְשֹׁתֵיכֶם בְּכָל-הַשָּׂרֵץ הָרֹמֵשׁ עַל-הָאָרֶץ:
 और-नहीं तुम अशुद्ध करो को अपने प्राणों में-सब रेंगने वाला रेंगने वाला पर पृथ्वी —
[H0589](#) [H3808](#) [H0853](#) [H5315](#) [H3605](#) [H8318](#) [H7430](#) [H0776](#)

क्यों क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहीवा हूँ। मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम्हें अपने को पवित्र रखना चाहिए! उन घिनौने रेंगने वाले जानवरों से अपने को घिनौना न बनाओ!

45 כִּי אֲנִי יְהוָה הַמַּעֲלֶה אֶתְכֶם מִמִּצְרַיִם לְאֱלֹהִים
 क्योंकि मैं हूँ यहीवा उठाने वाला तुम्हें से-देश तुम्हें मिश्र लाने के लिए तुम्हारे लिए परमेश्वर
[H0589](#) [H3068](#) [H5927](#) [H0853](#) [H0776](#) [H4714](#) [H1961](#) [H0430](#)

וְהָיִיתֶם קְדוֹשִׁים כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי:
 और-तुम पवित्र होओ क्योंकि मैं पवित्र हूँ
[H1961](#) [H6918](#) [H6918](#) [H0589](#)

मैं तुम लोगों को मिश्र से लाया। मैंने यह इसलिए किया कि तुम लोग मेरे विशेष जन बने रह सको। मैंने यह इसलिए किया कि मैं तुमहार परमेश्वर बन सकूँ। मैं पवित्र हूँ अतः तम्हें भी पवित्र रहना है!"

46 זָאת תּוֹרַת הַבְּהֵמָה וְהָעוֹף וְכָל-נֶפֶשׁ הַחַיָּוִי הַשֹּׂרֵץ זָאת תּוֹרַת הַבְּהֵמָה וְהָעוֹף וְכָל-נֶפֶשׁ הַחַיָּוִי
 यह व्यवस्था पशु और-पक्षी और-हर प्राणी और-हर प्राणी जीवित चलने वाला में-जल और-हर और-बीच और-बीच और-बीच
[H2063](#) [H8451](#) [H0929](#) [H5775](#) [H3605](#) [H5315](#) [H7430](#) [H4325](#) [H3605](#) [H5315](#) [H8317](#)

עַל-הָאָרֶץ:
 पर पृथ्वी
[H0776](#)

वे नियम सभी मवेशियों, पक्षियों और धरती के अन्य जानवरों के लिए हैं। वे नियम समुद्र में रहने वाले सभी जानवरों और धरती पर रेंगने वाले सभी जानवरों के लिए हैं।

47 לְהַבְדִּיל בֵּין הַטְּמֵא וּבֵין הַטְּהוֹר וּבֵין הַחַיָּוִי הַשֹּׂרֵץ וּבֵין הַחַיָּוִי הַשֹּׂרֵץ
 अलग करने के लिए बीच अशुद्ध और-बीच शुद्ध और-बीच और-बीच खाया जाने वाला और-बीच जीव जीव
[H0914](#) [H0996](#) [H2931](#) [H0996](#) [H2889](#) [H0996](#) [H0398](#) [H0996](#)

אֲשֶׁר לֹא תֹאכְלוּ:
 जो नहीं खाया जाएगा
[H3808](#) [H0398](#)

वे उपदेश इसलिए हैं कि लोग शुद्ध जानवरों और घिनौने जानवरों में अन्तर कर सकें। इस, प्रकार लोग जानेंगे कि कौन सा जानवर खाने योग्य है और कौन सा खाने योग्य नहीं है।